

# Shri Jankinatha Ji Ki Aarti

ॐ जय जानकीनाथा,  
जय श्री रघुनाथा ।  
दोउ कर जोरें बिनवौं,  
प्रभु! सुनिये बाता ॥ ॐ जय..॥

तुम रघुनाथ हमारे,  
प्राण पिता माता ।  
तुम ही सज्जन—संगी,  
भक्ति मुक्ति दाता ॥ ॐ जय..॥

लख चौरासी काटो,  
मेटो यम त्रासा ।  
निशदिन प्रभु मोहि रखिये,  
अपने ही पासा ॥ ॐ जय..॥

राम भरत लछिमन,  
सँग शत्रुहन भैया ।  
जगमग ज्योति विराजै,  
शोभा अति लहिया ॥ ॐ जय..॥

हनुमत नाद बजावत,  
नेवर झमकाता ।  
स्वर्णथाल कर आरती,  
करत कौशल्या माता ॥ ॐ जय..॥

सुभग मुकुट सिर, धनु सर,  
कर शोभा भारी ।  
मनीराम दर्शन करि,  
पल—पल बलिहारी ॥ ॐ जय..॥

जय जानकिनाथा,  
हो प्रभु जय श्री रघुनाथा ।  
हो प्रभु जय सीता माता,  
हो प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता ॥ ॐ जय..॥

हो प्रभु जय चारौं भ्राता,  
हो प्रभु जय हनुमत दासा ।  
दोउ कर जोड़े विनवौं,  
प्रभु मेरी सुनो बाता ॥ ॐ जय..॥